

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 34/प्रेसनोट/2021

17 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अतरौलिया

**पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद देशी पिस्टल 32**

**बोर मय मैगजीन व जिन्दा कारतूस व टाटा टियागो कार बरामद**

अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह**, व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में आज दिनांक 17/1/2021 को SSI माखन सिंह मय हमराह को समय करीब सुबह 7.30 बजे पूरब पोखरा आंगनवाड़ी के पास कस्बा अतरौलिया में जरिये मुखबिर सूचना मिली की कुछ अपराधी किस्म के लोग बैठकर किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बैठे है उक्त सूचना पर SSI माखन सिंह मय हमराह मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर गाली व धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से अवैध पिस्टल से फायर झोंक दिए। पुलिस बल द्वारा बाल-बाल बचते हुए मौके से 02 बदमाशों को पकड़ लिया गया तथा एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। अभियुक्तों का नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम मो० दाउद पुत्र स्व० महमूद अहमद निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम मो० शाहिद पुत्र मो० शफीक उर्फ बादशाह निवासी जोलहा टोला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया तथा मौके का फायदा उठाकर एक अभियुक्त मो० शादिक पुत्र असगर अली निवासी जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया अपने अवैध पिस्टल के साथ भाग गया। मौके पर अभियुक्त मो० दाउद के कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अपराध में प्रयुक्त कार WB 02 AL 2010 लाल रंग की टाटा टियागो बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 10/21 धारा 307/504/506 IPC बनाम अभियुक्तगण 1. मो० दाउद पुत्र स्व० महमूद अहमद निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष 2. मो० शाहिद पुत्र मो० शफीक उर्फ बादशाह निवासी जोलहा टोला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष 3. मो० शादिक पुत्र असगर अली निवासी जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया व मो० दाउद पुत्र स्व० महमूद अहमद निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध मु०अ० सं 11/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1. मो० दाउद पुत्र स्व० महमूद अहमद निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
2. मो० शाहिद पुत्र मो० शफीक उर्फ बादशाह निवासी जोलहा टोला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20

### बरामदगी

एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन व जिन्दा कारतूस व WB 02 AL 2010 लाल रंग की टाटा टियागो कार

### पंजीकृत अभियोग –

1. मु०अ०सं०-10/21 धारा 307/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. मु०अ० सं 11/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

### अपराधिक इतिहास–

#### फरार अभियुक्त –

मो० शादिक पुत्र असगर अली निवासी जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०सं० 90/17 धारा 60 EX एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 193 /17 धारा 307/323/352/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. NCR NO. 8/17 धारा 323/504/506 IPC
4. NCR NO. 128/2020 धारा 323/504 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

SSI माखन सिंह , का० अवनीश सिंह , का० अविनाश विश्वकर्मा , का० अमित कुमार , का० सद्दाम हुसैन